

M.Com. (Semester—IV) Examination
(B) CO-OPERATIVE MANAGEMENT
(Marketing)
Paper : 402-B(2)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :—(1) All questions are compulsory.

(2) All questions carry equal marks.

1. (A) Explain the meaning and principles of management. Why professional management is essential in co-operative institutions ? 16

OR

- (B) 'Do you feel that the computerisation is required for transparency and efficiency in co-operative sector' ? Discuss. 16

2. (A) Discuss the powers, duties and responsibilities of the chairman of the co-operative institutions. 16

OR

- (B) Explain the objectives and structure of co-operative training and education. 16

3. (A) Discuss the various sources of capital raising and limitations in capital raising of co-operatives. 16

OR

- (B) Trial Balance of BHIMYUG co-operative society for the year ended 31st March 2014 given below :

Dr.		Cr.	
Particulars	Amt. Dr.	Particulars	Amt. Cr.
Stock	1,65,000	Share capital	10,00,000
Purchase	12,07,500	Reserve & Other fund	62,000
Wages	18,000	Bank O/D	67,500
Sales return	67,500	Creditors	60,000
Octroi	19,500	Discount Received	8,000
Carriage on purchase	25,500	Sales	19,06,150
Carriage on sales	12,000	Purchase return	30,000
Insurance	1,17,750	Unclaimed dividend	22,500
Interest	6,000	Depreciation fund	1,42,500
Allowances to Directors	37,500	Doubtful Debt Reserve	7,000
Advertisement	21,500		
Sundry debtors	1,80,000		

Particulars	Amt. Dr.	Particulars	Amt. Cr.
Bad debt	3,750		
Motor (Basic value)	3,17,500		
Postage	11,750		
Cash in hand	37,500		
Investment of Reserve	45,000		
Furniture	90,000		
Machinery	3,97,500		
Bill receivable	38,200		
Stationery	25,000		
Building	3,20,000		
Share of co-op. marketing federation	35,000		
Bank Current A/c	1,00,000		
Audit fee	6,700		
	33,05,650		33,05,650

Adjustments :—

- (1) Closing Stock is valued Rs. 2,52,000.
 - (2) Create doubtful debt reserve on debtors by 5%.
 - (3) Prepaid Insurance is Rs. 2,500.
 - (4) Unpaid Advertisement expenses are Rs. 5,000.
 - (5) Depreciation on furniture and machinery by 5% and on motor car by 10%.
 - (6) Create 2% dividend equalisation fund.
 - (7) Make the provision for dividend @ 12%.
 - (8) Make the provision for Reserve fund as per provision of Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960. 16
4. (A) What do you mean by Sales promotion ? Explain the various functions for product and sales promotion in Co-operative Sector. 16

OR

- (B) Discuss the nature, scope and need of Marketing in Co-operative Sector. 16
5. (A) Write the main provisions of Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960. 16

OR

- (B) Explain legal provisions and procedure regarding Settlement of Disputes, Appeal, Revision and Reviews under Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960. 16

AV-141

M.Com. (Semester—IV) Examination
(B) CO-OPERATIVE MANAGEMENT
(Marketing)
Paper : 402-B(2)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

- नोट :— (1) सर्व प्रश्न आवश्यक आहेत.
 (2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) व्यवस्थापनाचा अर्थ आणि तत्वे स्पष्ट करा. सहकारी संस्थांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन का आवश्यक आहे ? 16

किंवा

- (ब) सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी संगणकीकरणाची आवश्यकता आहे असे आपणास वाटते काय ? चर्चा करा. 16

2. (अ) सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षाची अधिकार, कर्तव्य आणि दायित्वाची चर्चा करा. 16

किंवा

- (ब) सहकारी प्रशिक्षण-शिक्षणाची उद्दिष्टे आणि संरचना स्पष्ट करा. 16

3. (अ) सहकारी संस्थांच्या भांडवल उभारणीच्या विविध साधनांची व त्यांच्या मर्यादांची चर्चा करा. 16

किंवा

- (ब) भीमयुग सहकारी संस्थेची 31 मार्च 2014 ला संपणाऱ्या वर्षाची परिक्षा सुची खाली दिलेली आहे :

विकलन

समाकलन

विवरण	राशी विक.	विवरण	राशी समा.
स्कंध	1,65,000	भाग भांडवल	10,00,000
खरेदी	12,07,500	गंगाजळी व इतर निधी	62,000
गजुरी	18,000	अधिकोष अधिविकर्ष	67,500
विक्रय परत	67,500	धनको	60,000
जकात	19,500	प्राप्त छूट	8,000
खरेदी वाहन व्यय	25,500	विक्रय	19,06,150
विक्री वाहन व्यय	12,000	खरेदी परत	30,000
विमा	1,17,750	दावे न केलेला लाभांश	22,500
व्याज	6,000	घसारा निधी	1,42,500
संचालकांचे भत्ते	37,500	संदिग्ध ऋणार्थ निधी	7,000
जाहीरात	21,500		
विविध ऋणको	1,80,000		

विवरण	राशी विक.	विवरण	राशी समा.
बुडीत कर्ज	3,750		
मोटारगाडी	3,17,500		
टपाळ	11,750		
हस्तस्थ रोख	37,500		
निधीची गुंतवणूक	45,000		
उपस्कर	90,000		
यंत्रसामुग्री	3,97,500		
प्राप्य हुंडया	38,200		
स्टेशनरी	25,000		
इमारत	3,20,000		
सहकारी संघाचे भाग	35,000		
बँक चल खाते	1,00,000		
अंकेक्षण शुल्क	6,700		
	33,05,650		33,05,650

समायोजना :—

- (1) सवरेण स्कंधाचे मुल्य 2,42,000 रु.
 - (2) ऋणकोवर 5% संदिग्ध ऋणार्थ निधी आकारा.
 - (3) पूर्वदत्त विमा 2,500 रु. आहे.
 - (4) अदत्त जाहीरात खर्च 5,000 रु. आहे.
 - (5) उपस्करावर व यंत्रसामुग्रीवर 5% आणि मोटारवर 10% घसारा आकारा.
 - (6) 2% लाभांश समकरण निधी करीता तरतुद करा.
 - (7) 12% दराने लाभांशाची तरतुद करा.
 - (8) महाराष्ट्र सहकार संस्था कायदा 1960 प्रमाणे गंगाजळीची तरतुद करा. 16
4. (अ) विक्रय संवर्धन यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? सहकार क्षेत्रातील उत्पादन व विक्रय संवर्धनाकरीता करावयाची विविध कार्य स्पष्ट करा. 16
- किंवा
- (ब) सहकार क्षेत्रातील विपणनाचे स्वरूप, व्याप्ती आणि गरजांची चर्चा करा. 16
5. (अ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 च्या प्रमुख तरतुदी लिहा. 16
- किंवा
- (ब) महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 च्या विवाद तडजोड, दाद मागणे (Appeal), पुनर्विचार (Revision) आणि पुनवलोकन (Review) यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी व प्रक्रीया स्पष्ट करा. 16

M.Com. (Semester—IV) Examination
(B) CO-OPERATIVE MANAGEMENT
(Marketing)
Paper : 402-B(2)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

नोट :—(1) सभी प्रश्न आवश्यक हैं।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

1. (अ) प्रबंधन का अर्थ एवं तत्वों को विशद कीजिये। सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है ? 16

अथवा

- (ब) सहकार क्षेत्र में पारदर्शिता एवम् कार्यक्षमता हेतु संगणकीकरण की आवश्यकता को आप महसूस करते हैं ? चर्चा कीजिए। 16

2. (अ) सहकारी संस्था के अध्यक्ष के अधिकार, कर्तव्य एवम् दायित्वों की चर्चा कीजिए। 16

अथवा

- (ब) सहकारी प्रशिक्षण-शिक्षा के (Training and Education) उद्देश्य एवम् संरचना को विशद कीजिए। 16

3. (अ) सहकारी संस्थाओं के पूँजी निर्माण के भिन्न स्रोतों एवम् उनकी मर्यादाओं की चर्चा कीजिए। 16

अथवा

- (ब) भीमयुग सहकारी संस्था की 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की परीक्षा सूची निम्न रूप से दी गई है :

विकलन

समाकलन

विवरण	राशी विक.	विवरण	राशी समा.
स्कंध	1,65,000	अंश पूँजी	10,00,000
खरेदी	12,07,500	गंगाजळी एवं अन्य निधी	62,000
मजुरी	18,000	बैंक ओव्हर डाफ्ट	67,500
बिक्री वापसी	67,500	उत्तमर्ण	60,000
जकात	19,500	प्राप्त छूट	8,000
खरेदी पर वाहन व्यय	25,500	बिक्री	19,06,150
बिक्री पर वाहन व्यय	12,000	खरेदी परत (वापसी)	30,000
बीमा	1,17,750	न उठाया लाभांश	22,500
ब्याज	6,000	(unclaimed dividend)	
संचालकों के भत्ते	37,500	घसारा निधी (अवक्षयन)	1,42,500
जाहीरात	21,500	संदिग्ध ऋणार्थ सचिती	7,000
अधमर्ण	1,80,000		

विवरण	राशी विक.	विवरण	राशी समा.
अशुद्ध ऋण (bad debt)	3,750		
मोटरगाड़ी	3,17,500		
टपाल	11,750		
रोख	37,500		
निधी का विनियोग	45,000		
फर्निचर	90,000		
यंत्र समग्री	3,97,500		
प्राप्त हुंडी	38,200		
स्टेशनरी	25,000		
इमारत	3,20,000		
सहकारी संघ के भाग	35,000		
बैंक चालु खाता	1,00,000		
अंकेक्षण शुल्क	6,700		
	33,05,650		33,05,650

समायोजनाएं :—

- (1) संवरण स्कंध मूल्य 2,42,000 रु.
 - (2) अधमर्ण पर 5% संदिग्ध ऋणार्थ संचिती का प्रावधान कीजिए।
 - (3) अग्रिम बीमा 2,500 रु. का है।
 - (4) विज्ञापन खर्च 5,000 रु. देना बाकी है।
 - (5) फर्निचर एवं यंत्रसामग्री 5% से अवमूल्यन कीजिए एवम् मोटरगाड़ी 10% से अवमूल्यन कीजिए।
 - (6) 2% लाभांश समकरण निधी का प्रावधान कीजिए।
 - (7) 12% से लाभांश के लिये प्रावधान कीजिए।
 - (8) महाराष्ट्र सहकारी संस्था कानून 1960 के प्रावधानों के अनुसार गंगजळी (Reserve) फंड का प्रावधान कीजिए। 16
4. (अ) विक्रय संवर्धन से आपको क्या अर्थबोध होता है ? सहकार क्षेत्र के उत्पादन एवम् विक्रय संवर्धन हेतु भिन्न कार्यो को विशद कीजिए। 16
- अथवा**
- (ब) सहकारिता क्षेत्र में विपणन का स्वरूप, व्याप्ति एवम् आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। 16
5. (अ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था कानून 1960 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। 16
- अथवा**
- (ब) महाराष्ट्र सहकारी संस्था कानून 1960 के तहत विवाद निपटारा (Settlement of disputes) दाद मागगा (Appeal), पुनर्विचार (Revision) एवम् पुनरावलोकन (Review) के संदर्भ में प्रावधानों एवम् प्रक्रियाओं को विशद कीजिए। 16